

IPAMC/SE/11/25-26

January 16, 2026

To,
BSE Limited,
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001
Scrip code: 544658

To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Listing Department,
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
NSE Symbol: ICICIAMC

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement(s) pertaining to financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Financial Express and Jansatta on Thursday, January 15, 2026, in relation to financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

These newspaper advertisement(s) includes a Quick Response code and the weblink to access complete financial results for the said period.

The said newspaper advertisement(s) would also be made available on the Company's website at www.icicipruamc.com.

This is for your information and records.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Rakesh Shetty
Chief Compliance Officer & Company Secretary
Membership No.: A15506



The Kerala Minerals & Metals Ltd

(A Govt. of Kerala Undertaking) Sankarankulam, Kollam, 691583
Phone : +91476-2681215 to 217, E-mail : md@kmmll.com, URL : www.kmmll.com

TENDER NOTICE

For more details, please visit E- Tendering Portal <https://etenders.kerala.gov.in> or www.kmmll.com

No	Tender ID	Items
1.	2026_KMML_825432.1	Fabrication Welding Laying Painting Testing & Commissioning of cooling water supply/return pipelines to ARP
2.	2026_KMML_827020.1	Trimethylol Ethane (TRIMET) - 197 MT
3.	2026_KMML_827546.1	Supply of PANEL MOUNTED INLETS CONNECTOR WITH PROTECTIVE CAPS 200A PANEL MOUNTED INLET 125A & INDUSTRIAL PLUG TOP 125 AMP/5 PIN

Chavara, 14.01.2026 **Sd/ Managing Director for The Kerala Minerals and Metals Ltd**



PUNJAB CHEMICALS AND CROP PROTECTION LTD.

CIN: L24231PB1975PLC047063

Regd. Office: Milestone 18, Ambala Kalika Road, Village & P.O. Bhankharpur, Derabassi, Dist. SAS Nagar, Mohali (Punjab) - 140201.
Tel No: 01762-280086, 522250, Fax No: 01762-280070.
Email: info@punjabchemicals.com; website: www.punjabchemicals.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARES CERTIFICATES

Notice is hereby given that the Share Certificate of the under mentioned Equity share of the Company have been lodged with transfer deed by Mr. Raj Kumar Sharma (purchaser) of the said Equity Shares for transfer in his name in accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025. (A special window made available for a period of six months from July 7, 2025 to January 6, 2026)

FOLIO NO.	NAME OF THE REGD SHAREHOLDER	CERT NO.	DIST NO.	NO OF SHARE	FV (RS.)
20405	BARJI DEVI JAIN	47476	4358030-4358036	7	10

Any person(s) who has objection or claim in respect of above mentioned shares should lodge such claim(s) in writing supported with valid documents with Registrar & Transfer Agent, Alankit Assignments Ltd., Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extn., New Delhi - 110 055, Tel.- 23541234, 42541234; Fax: 41543474 or Company within 15 days of publication of this Notice. Thereafter no claims will be entertained and the RTA or Company will proceed for registration in favour of lodger/purchaser.

For Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

Sd/- Rishu Challey

Place: Derabassi

Date: January 15, 2026

Company Secretary & Compliance Officer



OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-II

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, DELHI

4 FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING

PARLIAMENT STREET, NEW DELHI 110001

SALE PROCLAMATION NOTICE

IFCI Ltd. Vs M/s VHEL Industries Ltd.

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993

CD# 1

M/s Vhel Industries Ltd.
(Formerly known as Vikas Hybrid & Electronics Ltd.)
B-378, New Friends Colony, New Delhi-110065
Also at: Tilak Road, Ranigunj-713347 WB

CD# 2

Shri J.K. Rajgarhia
B-378, New Friends Colony, New Delhi-110015.

CD# 3

Sh. G.S. Rajgarhia
B-378, New Friends Colony, New Delhi-110015.
Sh. O.P. Rajgarhia (Since Deceased)
Through his legal representatives:
a) Smt. Kiran Devi Rajgarhia
W/o Late Sh. O.P. Rajgarhia
b) Sh. J.K. Rajgarhia
S/o Late Sh. O.P. Rajgarhia
Both R/o 293, Church Road, Vasant Kunj, New Delhi.
c) Smt. Vinita Bhagat
D/o Late Sh. O.P. Rajgarhia
R/o 12B, Pretoria Street Kolkata.

1

Whereas Transfer Recovery Certificate No.764/2022 in OA No. 399/1998 dated 29.04.2016 drawn by the Presiding officer, Debts Recovery Tribunal-I for the recovery of a sum Rs. 34,93,75,826/- (Rs. Thirty Four Crores Ninety Three Lacs Seventy Five Thousand Eight Hundred Twenty Six Only) along with pendent elite and future interest 15% p.a. w.e.f 19.11.1998 from the Certificate debtors together with costs and charges as per recovery certificate from the date of institution of suit (balance due as on 31.10.2025 is Rs. 171,70,61,729/-).

2

And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said Recovery Certificate.

3

Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold by e-auction and bidding shall take place through "Online Electronic Bidding" through the website <https://www.auctiontiger.net> on 25.02.2026 between 11 a.m.to 12 noon with extensions of 5 minutes duration after 12 noon, if required.

4

The sale shall be of the property of the CD(s) above-named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.

5

The property shall be put up for the sale as specified in the schedule. If the amount to be realized by sale is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale will also be stopped if, before auction is knocked down, the appears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale of proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned.

6

No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

7

The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made thereunder and to the following further conditions:

7.1

The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

7.2

The reserve price below which the properties shall not be sold and the Earnest Money Deposit (EMD) are as under:

Description of Property	Reserve Price (In Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (In Rs.)
All pieces and parcels of land being No. B-318, admeasuring 8000/sq. mtrs., RICO Industrial Area, 3 Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan.	RS. 18,36,00,000/-	Rs. 1,83,60,000/-

7.3

The interested bidders, who have submitted their bids not below the reserve price, alongwith documents including PAN Card, identity proof, address proof, etc., latest by 23.02.2026 before 5.00 PM in the Office of the Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi, shall be eligible to participate in the e-auction to be held from 11.00 AM to 12.00 Noon on 25.02.2026. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

7.4

The bidder(s) shall improve their offer in multiples of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh Only) in respect of property.

7.5

The unsuccessful bidder shall take the EMD directly from the Office of Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi/CHFI, i.e., IFCI, immediately on closure of the e-auction sale proceedings

7.6

The Successful/highest bidder shall have to prepare and deposit Demand Draft/Pay Order for 25% of the bid/sale amount favoring Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi, A/c B.R.C. No. 764/2022 within 24 hours after close of e-auction and after adjusting the EMD and send/deposit the same in the office of the Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi so as to reach within 24 hours from the close of e-auction, failing which the EMD shall be forfeited.

7.7

The successful/highest bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay Order favoring Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi. A/c T.R.C. No. 764/2022, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi on or before 15th day from the date of auction of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day alongwith the poundage fee @ 2% upto Rs.1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over Rs. 1000/- in favour of Registrar, DRT-II Delhi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above).

7.8

The successful/highest bidder shall be at liberty to comply with the provisions of Section 194-IA of the Income Tax Act for paying the applicable TDS on the auction amount proposed to be deposited before this Forum. In such an event, the successful/highest bidder must produce the proof of having deposited the said amount before this Forum while paying the balance sale proceeds.

7.9

In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be re-sold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

8

The property is being sold on "AS IS WHERE IS AND AS IS WHAT IS BASIS".

9

The CH Bank/CHFI is directed to authenticate and verify about the veracity of the details given herein.

10

The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

Description of the property to be sold	Revenue assessed upon the property or any part thereof	Details of any encumbrance to which property is liable	Claims, if any, which have been put forward to the property, and any other known particulars bearing on its nature and value.
All pieces and parcels of land being No. B-318, admeasuring 8000/- sq. mtrs., RICO Industrial Area, 3 Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan.	Not known	Not known	Not known

Given under my hand and seal on 23.12.2025. (Vaatsalya Kumar) Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR SARITA STEEL & POWER LIMITED OPERATING IN IRON & STEEL INDUSTRY AT BANKURA, WEST BENGAL

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

SL.	RELEVANT PARTICULARS
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No. Sarita Steel & Power Limited PAN - AACST716SD CIN - U27109WB2004PLC097841
2.	Address of the registered office 35 Chittaranjan Avenue, Kolkata, West Bengal, India - 700012
3.	URL of website Saritasteelindpowerlimited.com
4.	Details of place where majority of fixed assets are located 35, Saltora, Bankura Road, Jorehira, Chhatna, Bankura, West Bengal - 722137
5.	Installed capacity of main products/ services There is no installed capacity as the only asset is 10.47 acres of land leased to Ankit Metal & Power Limited
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year Nil
7.	Number of employees/ workmen Nil
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL: Saritasteelindpowerlimited.com OR Details can be also obtained by e-mailing at cirp.saritasteel@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL: Saritasteelindpowerlimited.com OR Details can be obtained by e-mailing at cirp.saritasteel@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest 30-01-2026
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants 02-02-2026
12.	Last date for submission of objections to provisional list 07-02-2026
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants 09-02-2026
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants 09-02-2026
15.	Last date for submission of resolution plans 11-03-2026
16.	Process email id to submit Expression of Interest cirp.saritasteel@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME No available information with the RP

Place: Kolkata
Date: 15.01.2026
Signature of the Resolution Professional Sanjeev Kumar Jalan
Resolution Professional of Sarita Steel & Power Limited under CIRP
IP Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P-01901/2020-2021/13053
AFA Valid Till: 30.06.2026
Registered Address of the Resolution Professional: Raheja Solitaire Wing B 1401, Vir Sanghvi Marg, Near Kamat Hotel, Mumbai City, Maharashtra, 400104
For Correspondence Address: BDO Restructuring Advisory LLP, Level 9, The Ruby, Northwest Wing, Senapati Bapat Road, Dadar (W), Mumbai 400028, INDIA
Communications Email Address: cirp.saritasteel@gmail.com; sanjeevjalan@bdo.in

Justdial®

Just Dial Limited

CIN: L74140MH1993PLC150054

Registered Office: Palm Court, Building-M, 501/B, 5th Floor, New Link Road, Beside Goregaon Sports Complex, Malad (West), Mumbai - 400 064.
Tel: +91 22 2888 4060; Website: www.justdial.com; E-mail: investors@justdial.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹ in million except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended December 31, 2025 (Unaudited)	Nine months ended December 31, 2025 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2024 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	3,056.9	9,066.2	2,873.3
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,667.0	5,126.2	1,491.7
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,456.2	4,915.4	1,491.7
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,179.3	3,970.2	1313.1
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,181.0	3,949.2	1315.0
6	Equity Share Capital	850.4	850.4	850.4
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as per the balance sheet of the previous year			
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not annualised)			
	a) Basic (₹)	16.35	49.17	15.44
	b) Diluted (₹)	16.35	49.16	15.44

Notes:

1. The statement of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 13, 2026. The Statutory Auditors have conducted a "Limited review" of these results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) www.bseindia.com, www.nseindia.com & www.mseil.in also on the website of the Company www.justdial.com under Investor Relation Section. Further, the same can be accessed by scanning the below QR code.

3. Effective November 21, 2025, the new labour code on Social Security, 2020, amended the definition of "wages" for gratuity calculations and expanded coverage to fixed-term employees. Under Ind AS 19, the revision to gratuity benefit resulting from new labour codes are considered as plan amendments and are treated as past service costs. Consequently, the Company has recognised a one-time, past service cost of Rs. 210.8 million on account of aforesaid revision as Exceptional item in the Statement of Profit and Loss for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

For Just Dial Limited

Sd/-

V.S.S. Mani

Managing Director and Chief Executive Officer

DIN: 00202052

Date: January 13, 2026

HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LIMITED

CIN: L65910MH1984PLC034514

Registered Office : 1st Floor, B-wing, Jaywant Apartment, Above SBI Bank, 63, Tardeo Road, Mumbai- 400034
Tel No: 022 23535107 / 9152728663 Website: www.hathwaybhawani.com; Email: investors.bhawani@hathway.net

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

(Rs. in Lakhs, except per share data)

Sr No	Particulars	Consolidated	Standalone
		Quarter ended December 31, 2025 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2025 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	58.25	179.60
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	3.38	2.28
3	Share of net Profit / (Loss) of Joint venture accounted for using the equity method	(0.34)	(0.07)
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	3.04	2.21
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	2.97	0.55
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period [comprising Profit / (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.05	1.70
7	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	810.00	810.00
8	Earnings Per Share (Face value of Rs.10/- each) (Basic, Diluted and not annualised) (in Rs.)	0.04	0.01

Notes:-

1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, filed with the Stock Exchange pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results is available on the Stock Exchange's website (www.bseindia.com), the Company's website (www.hathwaybhawani.com) and can also be accessed through the QR Code attached herewith.

2. The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results and its release at their respective meetings held on January 13, 2026.

For Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Ltd

Sd/-

Dhiren Dalal

Chairman

DIN: 01218886

Place : Mumbai

Date : January 13, 2026

SREI

SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED

(CIN: U70101WB2006PLC109898)

Registered Office: "Viswakarma", 86C, Topsia Road (South), Kolkata - 700046
Head Office: Plot No. Y-10, Block EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091
Email: sell@srei.com; Website: www.srei.com

NOTICE

This is to inform the public in general and customers of Srei Equipment Finance Limited (SEFL) that the following Branch Office Addresses of the Company as per details mentioned has been changed and shifted to New Address w.e.f. 15th January, 2026.

Branch Office	Old Address	New Address	Contact Person
Bangalore	No. 357/6 1st Cross, 1st Block, Jayanagar, Bangalore-560011	3rd Floor, No. 1372/C/1/01-01, at Thirty Second E Cross, Forth T Block, Jayanagar Extension, Bengaluru - 560041	Ranganatha B. S. Mobile: 9845433762 Email: ranganatha.bs@srei.com
Lucknow	B-56A, 2nd Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010	Fun Republic Mall, Lohia Path, Nehru Enclave, Gomti Nagar Lucknow - 226010	Hemendra Kumar Mishra Mobile: 8840550780 Email: hemendra.mishra@srei.com
Mumbai	Unit No.901, 9th Floor, A Wing, Supreme Business Park, Supreme City, Vill-Powai, Mumbai - 400076	Unit No.205/A, 2nd Floor, Wing B, Supreme Business Park, Supreme City, Vill-Powai, Mumbai - 400076	Sameer Laxman Chavan Mobile: 9619009177 Email: sameer.chavan@srei.com

THE BUSINESS DAILY

FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS

SREI

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

(CIN: U29219WB1985PLC055352)

Registered Office: "Vishwakarma", 86C Topsia Road (S), Kolkata - 700046

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public in general and customers of Srei Infrastructure Finance Limited ("SIFL") in particular, that the following branch offices of SIFL have shifted as under w.e.f January 15, 2026:

Branch Office	Old Address	New Address	Contact Person
Bangalore	No. 357/6 1st Cross, 1st Block, Jayanagar, Bangalore-560011	3rd Floor, No. 1372/C/1/01-01, at Thirty Second E Cross, Forth T Block, Jayanagar Extension, Bengaluru - 560041	Rohit Kumar Sharma Mobile: 8095885577 Email: rohit.sharma@srei.com
Lucknow	B-56A, 2nd Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010	Fun Republic Mall, Lohia Path, Nehru Enclave, Gomti Nagar Lucknow - 226010	Hemendra Kumar Mishra Mobile: 8840550780 Email: hemendra.mishra@srei.com
Mumbai	Unit No.901, 9th Floor, A Wing, Supreme Business Park, Supreme City, Vill-Powai, Mumbai - 400076	Unit No.205/A, 2nd Floor, Wing B, Supreme Business Park, Supreme City, Vill-Powai, Mumbai - 400076	Sameer Vijay Shirsat Mobile: 9833920844 Email: sameer.shirsat@srei.com

Sd/-
Manoj Kumar
Company Secretary & CCO

Date : 15.01.2026
Place: Kolkata

ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: ICICI Prudential Mutual Fund Tower, Vakola, Santacruz East, Mumbai - 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83, Website: www.icicipruamc.com, Email id: amcinvestors@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

Based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors of ICICI Prudential Asset Management Company Limited ("the Company") at its meeting held on January 14, 2026 has approved the unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, which have been reviewed by Walker Chandok & Co LLP, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The aforementioned financial results along with the report of the Statutory Auditors thereon are available on <https://www.icicipruamc.com/investor-relations/> quarterly-financial-results and can also be accessed by scanning a Quick Response Code given below:

Scan the QR Code to access the Results on the website of the Company

Scan the QR Code to access the Results on the website of BSE Limited

In case there are any questions on the above disclosure, please reach out to us at: amcinvestors@icicipruamc.com / Tel: +91 022 2652 5000.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nimesh Shah
Managing Director & Chief Executive Officer
DIN: 01709631

Place: Mumbai | Date : January 14, 2026

AXIS FINANCE LIMITED

CIN: U65921MH1995PLC1212675

Regd. Office: Axis House, Ground floor, Wadia International Centre, Worli, Mumbai - 400025
Tel.: 022-43255004, Email ID: info@axisfinance.in, Website : www.axisfinance.in

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended December 31, 2025 Audited	Quarter ended December 31, 2024 Audited	Year ended March 31, 2025 Audited
1	Total Income from Operations	1,29,292.15	1,03,542.44	4,10,063.51
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	26,227.11	23,500.09	87,719.54
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26,227.11	23,500.09	87,719.54
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19,524.52	17,599.05	65,247.34
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	19,553.61	18,325.05	63,689.77
6	Paid up Equity Share Capital	69,357.05	69,357.05	69,357.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	5,22,379.24	4,47,010.73	4,61,050.32
8	Securities Premium Account	1,76,905.48	1,76,905.48	1,76,905.48
9	Net Worth	5,91,736.29	5,16,367.80	5,30,407.37
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	38,95,048.08	31,71,975.10	33,87,534.30
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	6.58	6.14	6.39
13	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	2.82	2.68	10.03
	2. Diluted:	2.76	2.68	10.03
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debiture Redemption Reserve	-	-	-
16	Debit Service Coverage Ratio	-	-	-
17	Interest Service Coverage Ratio	-	-	-
18	Outstanding redeemable preference shares (quantity and value)	N.A.	N.A.	N.A.
19	Current ratio	N.A.	N.A.	N.A.
20	Long term debt to working capital	N.A.	N.A.	N.A.
21	Bad debts to Account receivable ratio	N.A.	N.A.	N.A.
22	Current liability ratio	N.A.	N.A.	N.A.
23	Total debts to total assets	0.86	0.85	0.86
24	Debtors turnover	N.A.	N.A.	N.A.
25	Inventory turnover	N.A.	N.A.	N.A.
26	Operating margin (%)	N.A.	N.A.	N.A.
27	Net profit margin (%) for the quarter ended	15.10%	17.00%	14.60%
28	Sector specific equivalent ratios as on			
	a) Gross Stage 3 asset	0.94%	0.65%	0.87%
	b) Net Stage 3 asset	0.45%	0.33%	0.44%
	c) CRAR	19.93%	21.22%	20.90%
	d) Liquidity Coverage Ratio	331.43%	375.37%	426.20%

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited (www.bseindia.com) and Axis Finance Limited (www.axisfinance.in).

2. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on January 13, 2026 and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 14, 2026, and are audited by the statutory auditors, as required under the Regulations.

3. For the items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com.

4. Previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period/year figures.

For and on behalf of Board of Directors

AXIS FINANCE LIMITED

Sd/-

Sai Giridhar

Managing Director & CEO

DIN: 10757486

Place: Mumbai

Date: January 14, 2026

opaper.financialexpress.com

FINANCIAL EXPRESS

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div><div>महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड</div><div>कम्पैट कार्यालय :- महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड, सक्कना हाउस, द्वितीय तल, 57वे, पी.बी.मार्ग, बलरी, मुंबई 400 018 भारत, टेलीफोन :- +91 22 66523500 फैक्स :- +91 22 24972741</div></div>		<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div><div>कब्जा सूचना</div></div>		
आंचलिक कार्यालय :- द्वितीय तल, अशोक राज टावर, प्लॉट नंबर सी.पी. 162, सेंटरडी-1, एलबीए कॉलोनी, पावर हाउस चौराहा के पास, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226012				
(अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अधीन)				
<p>जबकि, अशोहरस्ताक्षरी ने, मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड (इसमें आगे "एफआरएनएफएल" कही गई है), जिसका पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में और शाखा कार्यालय लखनऊ में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारी (नाम और पता नीचे वर्णित) को मांग सुचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।</p>				
<p>उपर्युक्तित कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा उपर्युक्तित कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अशोहरस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 09-01-2026 को ले लिया है।</p>				
<p>उपर्युक्तित कर्जदारी को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड, की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।</p>				
<p>कर्जदार का ध्यान, प्रभावानु आस्थियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।</p>				
क्र.सं.	कर्जदार(री)/गारंटर(री) का नाम	प्रचलमान आस्थि का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मौग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि
1.	(एलसी संख्या: 512103/ NSEMLCK0044888) लखनऊ शाखा) महेंद्र सिंह (कर्मचारी) नीलम सिंह (सह-कर्जदार) अर्चना प्रसाद (गारंटर)	प्लॉट संख्या 65, खसरा संख्या 95, ग्राम- नरहरपुर, बीकंटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021, पूर्व प्लॉट संख्या 68, पश्चिम संदक 25 फीट चौड़ी, उत्तर- प्लॉट संख्या 64, दक्षिण- प्लॉट संख्या 66	08-09-2023 रु. 6.03511/-	09-01-2026 भीमिक कब्जा
स्थान : लखनऊ, तिथि : 16-01-2026		हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड		

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div> <div>इंडिया शेल्टर फाइनैस काप्रीशन लिमिटेड</div> <div>पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीटयूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002</div> <div>शाखा कार्यालय : 621/38, डबल्यू 2 जुही कला, प्रथम तल, नीलम कॉम्प्लेक्स, कानपुर - 208027, निकट सचान गेट हाउस, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010</div> </div>	
सार्वजनिक सूचना – अचल सम्पत्ति की विक्री के लिए नीलामी	
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के तहत]	
वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनैस काप्रीशन (आईएसएफसी) (पंतिभूत लेनदार) के पास बंधक अवल सम्पत्ति/सी की विक्री हेतु सूचना	
एतद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(री), सह-कर्जदार(री) तथा गारंटर(री) अथवा उनके कानूनी वारिस/सी प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि प्रभावानु लेनदार के पास बंधक/प्रभासित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/या, जिसका कब्जा आईएसएफसी (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 31-01-2026 को "जैसा है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित की गई है।	
सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईंप्रभडी राशि युक्त सीलबंद लिफाफा आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 30-01-2026 को अथवा पूर्व अप. 5 बजे तक, ईंप्रभडी/युगतान डीडी/ बैंक/आरटीडीएस/एनईएफटी द्वारा होगा, शाखा/काप्रीट कार्यालय : 621/38, डबल्यू 2 जुही कला, प्रथम तल, नीलम कॉम्प्लेक्स, कानपुर - 208027, निकट सचान गेट हाउस, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010 से जमा करना होगा।	

अन्य खाता सं. तथा कर्जदार(री)/ सह- कर्जदार(री)/ गारंटर(री)/ कानूनी वारिध(री)/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक बकाया राशि	कब्जा का प्रकार (पूला/ शीत/क्री के तहत)	सुरक्षित मूल्य बचत राशि
श्री/ श्रीमती अन्नापूर्णा अस्थाना सुपुत्र मनोज अस्थाना, श्री/ श्रीमती मनोज अस्थाना पुत्र गंगा शरण अस्थाना, श्री/ श्रीमती शुभम अस्थाना पुत्र मनोज अस्थाना, HL11CHLONS000005080325/AP-10192908	12-08-2025 रु. 22,42,503/- (रुपये बाईस लाख ब्यालीस हजार पांच सौ तीन मात्र)	भौतिक कब्जा	रु. 20,00,000/- रु. 2,00,000/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट संख्या ए-11, खसरा संख्या 1602 मिग, क्षेत्रफल 95260 वर्ग मीटर, ग्राम-मौली, परागना-महोता, तहसील- बकरी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226021, सीमा-पूर्व- प्लॉट सं. 10, पश्चिम-खाली प्लॉट संख्या 12, उत्तर-सड़क 25 फीट चौड़ी, दक्षिण- अन्य की संपत्ति			
श्री/श्रीमती बबिता उपध्याय पत्नी हरीश चंद उपध्याय, श्री/श्रीमती हरीश चंद उपध्याय पुत्र सुनील कुमार उपध्याय HL11CHLONS000005082466/AP-10198525	12-09-2024, रु. 11,29,876/- (रुपये ग्यारह लाख उत्तीस हजार आठ सौ छहत्तर मात्र)	भौतिक कब्जा	रु. 4,00,000/- रु. 40,000/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर बी-05, क्षेत्रफल 560 वर्ग गज, खसरा नंबर 62, ग्राम सकंबकत, परगना-माहोना, तहसील- बकरी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226021, सीहददी : पूर्व : रोड 20 फीट चौड़ी, पश्चिम : खाली प्लॉट सी-5, उत्तर : खाली प्लॉट, दक्षिण : खाली प्लॉट सी-4			
श्री/ श्रीमती शिला सावित्री मनी शिव शंकर, श्री/श्रीमती विनोद कुमार गुप्ता पुत्र शिव शंकर, श्री/श्रीमती शिव शंकर पुत्र श्री राधे श्याम LAFZVLLONS000005091831/AP-10217818	12-06-2025 रु. 16,55,377/- (रुपये सोलह लाख पचास हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रु. 14,00,000/- रु. 1,40,000/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : गाट नंबर 1299, क्षेत्रफल परिमाण 33.49 वर्ग मीटर (360 वर्ग फीट) ग्राम बेलसार परगना-माहोना, तहसील- बकरी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226021, सीमा-पूर्व- जगदम्मा पंडित की खाली भूमि, पश्चिम- कासिम का खाली मकान और दिन शंड, उत्तर- 5 मीटर कच्चा रास्ता, दक्षिण- नूना वारी की भूमि			
श्री/श्रीमती ममता जायसवाल पत्नी संजयमल जायसवाल, श्री/श्रीमती संजयमल पुत्र श्री कल्याण, श्री/ श्रीमती मोहन जायसवाल पुत्र कल्याण प्रसाद, श्री/श्रीमती कानूनी वारिध शक्ति जायसवाल पुत्र कल्या प्रसाद, श्री/श्रीमती कल्या प्रसाद पुत्र मममती प्रसाद, HL11SVLONS000005114071/AP-10268438	08-07-2025 रु. 9,92,906/- (रुपये नौ लाख बानवे हजार नौ सौ छह मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रु. 10,25,000/- रु. 1,02,500/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खसरा संख्या 516-5 एवं 516/22 मूखंड संख्या 62 ए क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट हेक्टर गज जरीद बर्द बालक गंज परगना तहसील और जिला-लखनऊ सीमा- पूर्व- प्लाट संख्या 110. पश्चिम- प्लाट संख्या 10 उत्तर- प्लाट संख्या 72. दक्षिण : प्लाट चौड़ी सड़क			
श्री/श्रीमती ज्योति शर्मा, HL11CHLONS000005012272/AP-10026067	11.12.2021 रु. 15,87,608.11/- (रुपये पंद्रह लाख सत्तासी हजार छह सौ आठ और ग्यारह पैसे मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रु. 10,20,000/- रु. 1,02,000/-
संपत्ति का विवरण : संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति अरजी नंबर 1988 मिग., दहेली सुजागपुर, कानपुर सुपी 208021 का हिस्सा है। सीमा- पूर्व- प्लॉट गिरिशा चंद वर्मा, पश्चिम - सड़क 30 फीट चौड़ी, उत्तर - प्लॉट माडी चिकित्सालय, दक्षिण- अरजी का शेष भाग			
श्री/श्रीमती पूनम पत्नी लक्ष्मी नारायण, श्री/श्रीमती लक्ष्मी नारायण पुत्र उमा शंकर HLABSVLONS000005134957@AP-10297423	12-जून-2025 रु. 13,47,912/- (रुपये तेरह लाख सैंतालीस हजार नौ सौ बारह मात्र)	भौतिक कब्जा	रु. 7,00,000/- रु. 70,000/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मूखंड खसरा संख्या 301 मिगपुमला क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट यानी 65.055 वर्ग मीटर, मसौदा शाहपुर काप्रीट सीलनक उत्तर प्रदेश 241304, सीमा- पूर्व- अन्य की भूमि, पश्चिम- विक्रेता की संपत्ति, उत्तर- रास्ता 17 फीट चौड़ा, दक्षिण- अन्य की भूमि			
श्री/श्रीमती सुनिता देवी, श्री/श्रीमती राम कृपाल गुप्ता पुत्र देवीधन गुप्ता LAGDVLLONS000005148090 & LAGDVLL- LONS000005146387/AP-10346286 & AP-10343813	12-02-2025 रु. 14,22,164/- (रुपये चौदह लाख बाईस हजार एक सौ चौंसठ मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रु. 20,00,000/- रु. 2,00,000/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : 376.81 वर्ग मीटर भूमि, प्लॉट संख्या 152, गाटा संख्या 192 का एक भाग, जो ग्राम कपूरपुर, परगना हाहपुर, तहसील कलमंज, जिला गोडा में स्थित है। सीमा- पूर्व- रास्ता इंटरलॉकिंग, पश्चिम: धनेश शुक्ला की भूमि, उत्तर- राम केवल की भूमि, दक्षिण: रास्ता इंटरलॉकिंग			
श्री/श्रीमती विद्या यादव श्री/श्रीमती श्याम जी यादव HL11CHLONS000005039035@AP-10080128	17.04.2024 रु. 5,08,763.53/- (रुपये पांच लाख आठ हजार सात सौ तिरसठ तथा पैसे तिरपन मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रु. 7,00,000/- रु. 70,000/-



सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट संख्या 46, एम. पिपरखंडा मोहल्ला, ठाकुर खंडा, परगना हड़हा, तहसील एवं जिला-उपमण उत्तर प्रदेश 475671, सीमा- पूर्व-20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- अन्य का प्लॉट, उत्तर- विक्रेता की भूमि, दक्षिण-20 फीट चौड़ी सड़क

निम्न और शर्तें :

- निष्पत्ति निविदा/ बोटी प्रपत्र तथा विक्री के नीचे और शर्तें शाखा कार्यालय : 621/38, डबल्यू 2 जुही कला, प्रथम तल, नीलम कॉम्प्लेक्स, कानपुर - 208027, निकट सचान गेट हाउस, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010 से प्रत्येक कार्य दिवस को पूरा। 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।
- अचल सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
- उपरोक्त सम्पत्ति/सी के कुछ हेतु प्रस्तुत सभी बेलियों/निविदाओं के साथ उपर्युक्तित अनुप्रा धरोहर राशि संलग्न करनी होगी। ईंप्रभडी राशि "इंडिया शेल्टर फाइनैस काप्रीशन लिमिटेड" के प्क्षा में होनी चाहिए। असफल बोलीदाओं की ईंप्रभडी के बाद, वापस की जाएगी।
- उच्चतम बोलीदार को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा परंतु यह है कि वह बोली देने हेतु कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और कि बोली राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को उच्चतम बोली अस्वीकार करने का विवेकविकास होगा, यदि प्रस्तावित राशि उपरोक्त चौकीकरण हेतु अयोग्य प्रतीत होती है।
- भीषण्युद्धी बोलीदाता भेद का समय पूर्व निश्चित कर सम्पत्ति का निरीक्षण 28-01-2026 को पूर्वा। 11.00 बजे तथा अप. 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं।
- सफल बोलीदाता घण्टा किए जाने वाले व्यक्ति को, घोषणा के तत्काल पश्चात, क्रय रशि/उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत राशि, जिसमें ईंप्रभडी राशि सम्मिलित होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी और इसके जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति नई नीलामी/ प्राइवेट ट्रीट्री द्वारा विक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- उपरोक्तानुसार आर्थिक राशि जमा करने के बाद, धन की शेष राशि, क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की विक्री मुद्रि की तिथि से, उस दिन को छोड़कर, 15ई दिन को अथवा पूर्व, या 15ई दिन रतिवार या अकेला दिवस होने की स्थिति में 15ई दिन से बाद वाले कार्यदिन को अदा करनी होगी।
- उपर्युक्तित अन्वि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति नई नीलामी/ प्राइवेट ट्रीट्री द्वारा विक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जमा की जा चुकी राशि ईंप्रभडी सहित इंडिया शेल्टर फाइनैस काप्रीशन लिमिटेड द्वारा जमा कर दी जाएगी तथा सम्पत्ति के संबंध में चुकताई क्रेता के सभी दावे समाप्त माने जाएंगे।
- उपरोक्त विक्री आईएसएफसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि साविधिक अथवा अन्य बकाया जैसेकि विक्री/सम्पत्ति कर, बिजली बकाया तथा साधारणी बकाया की जांच/मुद्रि संबंधित विभागों/कार्यालयों से कर लें। कम्पनी अधिनियम पर किसी बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेनी।
- प्रतिश्रुति टीडीएस, यदि कोई, उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि पर देना होगा। उच्चतम बोलीदाता को भुगतान कम्पनी के पैम में करना होगा तथा चालान की प्रति कम्पनी में प्रस्तुत करनी होगी।
- विक्री पूर्वानुदा इस विधान में और निम्नलि निविदा प्रपत्र में समाविष्ट विभागों एवं शर्तों के अधीन होगी।
- सफल बोलीदार/क्रेता को विक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने के लिए कानून के अनुसार लागू सभी स्टाम्प दायूटी, पंजीकरण शुल्क और अनुबंधी शुल्क दायर करने होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निविदा प्राथमगित/स्थगित/निरस्त करने और बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस विक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
- इच्छुक बोलीदाता की शुद्धी तोमर से मोबाइल नंबर +91 - 98184 60101 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/गारंटर/बंधककारी को 15 दिन का विक्री नोटिड	
एतद्वारा उपर्युक्तित कर्जदार/बंधककारी, गारंटरों को सूचना दी जाती है कि वे तथा मांग सूचना में वर्णितानुसार राशि उस पर अचल संपत्ति और संपत्ति सहित, नीलामी की स्थिति में पहले चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई, आगने ब्याज और लाभांश सहित वसूल की जाएगी।	
स्थान : 16-01-2026	वासर इंडिया शेल्टर फाइनैस काप्रीशन लि. प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : लखनऊ, कानपुर, गोडा	श्री सुशील तोमर मोबाइल नंबर +91 - 98184 60101

 यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड चौकी मंजिल, टॉवर 3, इंडियनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुली, मुंबई 400070				
कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) के अन्तर्गत) (अचल संपत्ति के लिए)				
<p>जबकि अशोहरस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत युगो कैपिटल लि. जिसका पंजीकृत पता: 4थी मंजिल, टावर 3, इंडियनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुली, मुंबई 400070 और पुनर्वातात फिनकोर्प लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय: अंमियंस 601, छठी मंजिल, जौरो एन आईटी पार्क, सर्वे नंबर 79/1, घोरपट्टी, मुंबई रोड, विंगले नस्ली, पुणे- 411036 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को ब्याज सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर वापस करने के लिए कहा गया था।</p> <p>उपरोक्तनीओ उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गई है इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अनुरात निम्नलिखित मांड और सर्व को सम्पत्ति पर कब्जा ले लिया है।</p> <p>कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन युगो कैपिटल लि. के प्रभाव वाले बकाया राशि और भीषण का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्राक्धानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुकाबे करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।</p>				
क्र.सं.	कर्जदार का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	बंधक सम्पत्ति	भौतिक कब्जा की तिथि
1	1) एफकेएस एटरप्राइजेज 2) एफकेसकेयर मैजिक्रेनिस प्राइवेट लिमिटेड 3) राकेश कुमार शर्मा 4) जारली शर्मा UGLWSS0000066372	सूचना की तिथि 26.07.2025 राशि: रु. 41,13,316/- दिनांक 24.07.2025 तक	बंधक रखी गई संपत्ति का पूरा विवरण। (इसमें प्लॉट संख्या, सर्वेक्षण संख्या, वार्ड संख्या आदि निर्दिष्ट होनी चाहिए भूमि का क्षेत्रफल/ प्लेट/ भवन का क्षेत्रफल और संपत्ति की सीमाएं जैसा कि 599PC/457D प्लॉट संख्या 47,48.49, 50 पर निर्मित उखरा संख्या 609, 614, 669, 667,668, 669, 676,677, 678 और 674 का भाग क्षेत्रफल 768.69 वर्ग फुट पंच पाप, पुरा-अवनगर, हवेली और सिला-लखनऊ सीमाएं; उत्तर- आभा का मकान, दक्षिण- श्री कुमार का प्लॉट/मकान मुई- उमा दीक्षित का प्लॉट पश्चिम- 15 फीट चौड़ी सड़क।	08.01.2026
स्थान : लखनऊ, दिनांक : 15.01.2026,		हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, यूगो कैपिटल लिमिटेड		

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div> <div>ICICI Prudential Asset Management Company Limited</div> <div>Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135</div> </div>	
Registered Office: 12 th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: ICICI Prudential Mutual Fund Tower, Vokola, Santacruz East, Mumbai – 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83, Website: www.icicipruamc.com, Email id: amcinvestors@icicipruamc.com Central Service Office: 2 nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai – 400 063. Tel: 022 26865 2000 Fax: 022 26868313	
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025	
Based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors of ICICI Prudential Asset Management Company Limited ("the Company") at its meeting held on January 14, 2026 has approved the unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, which have been reviewed by Walker Chandick & Co LLP. Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.	
The aforementioned financial results along with the report of the Statutory Auditors thereon are available on https://www.icicipruamc.com/investor-relations/quarterly-financial-results and can also be accessed by scanning a Quick Response Code given below:	
	
Scan the QR Code to access the Results on the website of the Company	Scan the QR Code to access the Results on the website of BSE Limited
In case there are any questions on the above disclosure, please reach out to us at amcinvestors@icicipruamc.com Tel: +91 022 2652 5000.	
For ICICI Prudential Asset Management Company Limited	
Nimesh Shah Managing Director & Chief Executive Officer DIN: 01709631	
Place: Mumbai Date : January 14, 2026	

सांकेतिक कब्जा सूचना				
ICICI Home Finance		पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051		
येहरे कार्यालय: आईसीआईसीआई एक्स्प्रेसवे रोड, जेजी नगर, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई- 400059				
आईसीआईसीआई बैंक, प्लॉट नंबर सी-03, सेक्टर-03, इंडोमिनिपूर कॉलेज रोड, सेक्टर-03, जगजीपुरम, लखनऊ, उ.प्र. - 226021				
आईसीआईसीआई बैंक, 302, 303, 304, तीसरी मंजिल, पुलिसको कॉम्प्लेक्स चैम्बर III, टीडी 58वीं, विष्णुपति बंगला, गोमतीनगर, लखनऊ-226010				
आईसीआईसीआई बैंक, पकल प्लॉट, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273004				
आईसीआईसीआई बैंक, मंडिकल कॉलेज रोड, ICICI बैंक के ऊपर, मयसपुर, गोरखपुर-273				